



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]
No. 195]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 2007/आश्विन 7, 1929
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 2007/ASVINA 7, 1929

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

चंडीगढ़, 17 सितम्बर, 2007

सं. : ई 3/पी.जी.आई./2007/3100.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, विनियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) विनियम, 2007 होगा।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ नियमों के नियम 10 में नियम 10 के परिशिष्ट में केन्द्रीय स्वायत्त निकायों हेतु वित्तीय विवरणों के फार्म सं. I, II व III के स्थान पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकल्पित तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा अनुमोदित संलग्नक I, II व III के अनुसार संशोधित फार्म I, II व III पुनःस्थापित किए जाते हैं।

संस्थान के प्राधिकारी द्वारा

के. के. तलवार, निदेशक

[चिज्ञापन III/IV/असा./86/07]

संलग्नक-I

संशोधित प्रपत्र-I

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़

को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा।

(राशि-रूपये)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I. आदि शेष			I. व्यय		
(क) हस्तगत रोकड़	(क) स्थापना व्यय
(ख) बैंक बकाया			(अनुसूची 20 के अनुसार)		
(i) चालू लेखों में	(ख) प्रशासनिक व्यय
(ii) जमा लेखों में	(अनुसूची 21 के अनुसार)
(iii) बचत लेखों में	II. विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों के प्रति किए गए भुगतान		
II. प्राप्त अनुदान			(निधि अथवा परियोजनाओं का नाम प्रत्येक परियोजना हेतु किए गए भुगतान के विवरण के साथ दर्शाए जाने चाहिए)		
(क) भारत सरकार से	III. किए गए निवेश तथा जमा		
(ख) राज्य सरकार से	(क) उद्दिष्ट/स्थायी निधियों में से
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण (पूँजी एवं राजस्व व्यय हेतु अनुदान अलग-अलग दर्शाए जाएं)	(ख) निजी निधियों में से
III. निवेशों से आय			(अन्य निवेश)		
(क) उद्दिष्ट/स्थायी निधि	IV. अचल परिसम्पत्तियों तथा चालू पूँजीगत निर्माण कार्य पर व्यय		
(ख) निजी निधि (अन्य निवेश)	(क) अचल परिसम्पत्तियों की खरीद
IV. प्राप्त ब्याज			(ख) चालू पूँजीगत निर्माण कार्य पर व्यय
(क) बैंक जमा पर	V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
(ख) ऋण/अग्रिम आदि	(क) भारत सरकार से
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)	(ख) राज्य सरकार से
VI. उधार ली गई राशि	(ग) अन्य निधि निवेशकों से
VII. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)	VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)
			VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)
			VIII. इति शेष बकाया		
			(क) हस्तगत रोकड़
			(ख) बैंक बकाया
			(i) चालू लेखों में
			(ii) जमा लेखों में
			(iii) बचत लेखे
कुल	कुल

संलग्नक-II

संशोधित प्रपत्र-II

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़

..... को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा ।

(राशि-रुपये)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान सहायिकी	13	-	-
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशों से आय (निधियों से अन्तरित उद्दिष्ट/स्थायी निधि)	15	-	-
स्वामित्व, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
ब्याज अर्जित	17	-	-
अन्य आय	18	-	-
स्टॉक में समाप्त सामान तथा चालू कार्यों का बढ़ना/(कम होना)	19	-	-
कुल (क)		-	-
व्यय			
स्थापना व्यय	20	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	-	-
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (..... को समाप्त वर्ष पर शुद्ध योग-अनुसूची 8 के अनुसार)		-	-
कुल (ख)		-	-
व्यय पर आय की अधिकता होने का बकाया (क-ख)			
विशेष आरक्षित से अन्तरण (प्रत्येक विनिर्दिष्ट करें)		-	-
सामान्य आरक्षित का/में से अन्तरण		-	-
समग्र/पूँजीगत निधि से नीति अधिशेष (घाटा) होने का बकाया		-	-
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25	-	-

संशोधित प्रपत्र-III

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
..... का तुलनपत्र

(राशि-रुपये)

समग्र/पूजीगत निधि तथा देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
समग्र/पूजीगत निधि	1	-	-
आरक्षित एवं अधिशेष	2	-	-
उद्दिष्ट/स्थायी निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण तथा ऋणादान	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा ऋणादान	5	-	-
आस्थगित जमा देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं तथा उपबन्ध	7	-	-
कुल			
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8	-	-
निवेश-उद्दिष्ट एवं स्थायी निधियों में से	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
चालू परिसम्पत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	11	-	-
विविध व्यय			
(अस्वीकृत/असमायोजित की सीमा तक)			
कुल			
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24	-	-
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25	-	-

पाद टिप्पणी : मूल विनियम संख्या सा.का.नि. 571 दिनांक 18-4-1967 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित थे तथा संशोधित संख्या द्वारा ।

- (1) भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1. 54/69-एम.ई.-पी.जी.आई. दिनांक 24-2-70.
- (2) भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1. 156/69-एम.ई.-पी.जी.आई. दिनांक 26-3-70.
- (3) भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 11-3-74.
- (4) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या एफ. 3/एन.एफ. 8(1)-76 दिनांक 18-5-76.
- (5) सा.का.नि. अधिसूचना संख्या ई. 1 (1)-पी.जी.आई.-76 दिनांक 14-9-76.
- (6) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/1/77-एम. ई. (पी.जी.) दिनांक 9-5-78 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित सा.का.नि. अधिसूचना संख्या इ.3/एन.एफ./78 दिनांक 18-5-78.
- (7) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/1/82-एम.ई. (पी.जी.); दिनांक 23-3-84 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना दिनांक 15-6-84.
- (8) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ.3/एन.एफ./7(2), 80 दिनांक 15-6-84.
- (9) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ.3/एन.एफ./84-6804, दिनांक 15-6-84.

- (10) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/3/84-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 17-12-84 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ. 3/एन.एफ./84/74438 दिनांक 26-12-84.
- (11) भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना दिनांक 26-12-84.
- (12) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना संख्या वी. 17011/4/85-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 13-9-85.
- (13) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/4/85-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 17-10-85 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एन.एफ./85-61505 दिनांक 17-10-85.
- (14) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/2/88-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 9/16-8-89 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एन.एफ./7(2)/88 दिनांक 12-9-89.
- (15) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या 31/2-टी.आर.जी.-68/4476-4527, दिनांक 23-1-96.
- (16) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एफ सी आई. (10)/1101 दिनांक 5-5-97.
- (17) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन दिनांक 30-11-98 सहित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715 (अ) पी.जी.आई.-एम.ए.-98/31599 दिनांक 30-11-98.
- (18) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23-2-99 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 152 (अ) पी.जी.आई.-एम.ए.-99/4795 दिनांक 24-2-99.
- (19) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/24/95-एम.ई. (पी.जी.)/एम.इ.-डिस्क-2 दिनांक 12-3-2001 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एन.एफ./2001/पी.जी.आई./722 दिनांक 22-3-2001.
- (20) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/5/2000-एम.ई. (पी.जी.) दिनांक 12-3-2001 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ2/एन.एफ./2001/पी.जी.आई./4990 दिनांक 30-3-2001.
- (21) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/21/2000-एम.ई. (पी.जी.) (भाग- II) दिनांक 15-5-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2002/2748 दिनांक 10-6-2002.
- (22) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/48/2000-एम.ई. डिस्क II, दिनांक 8-7-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/2002/4056 दिनांक 30-7-2002.
- (23) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/84/2005-एम.ई.-II, दिनांक 21-11-2005 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2005/7587 दिनांक चण्डीगढ़ 21-11-2005.

POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH

NOTIFICATION

Chandigarh, the 17th September, 2007

No. E3/PGI/2007/3100.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 31 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966, the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Rules, 1967, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Rules, 2007.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.
2. In the Rule 10 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Rules, *Form Nos. I, II & III appended to Rule 10, are replaced by revised forms Nos. I, II & III of Financial Statements for the Central Autonomous Bodies devised by the Ministry of Finance and approved by the C & AG as per Annexure I, II & III.*

By the authority of the Institute

K. K. TALWAR, Director

[ADVT-III/IV/Exty/86/07]

4049 GI/07-2

Annexure-I

Revised Form-I

Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh
Receipts and Payments Accounts for the year ended_____

(Amount-Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balances			I. Expenses		
(a) Cash in hand	(a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 20)
(b) Bank Balances			(b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 21)
(i) In current accounts			
(ii) In deposit accounts			
(iii) Saving accounts			
II. Grants Received			II. Payments made against funds for various projects		
(a) From Government of India	(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)
(b) From State Government			
(c) From other sources (details) (Grants for capital & revenue exp. to be shown separately)			
III. Income on Investments from			III. Investments and deposits made		
(a) Earmarked/Endow. Funds	(a) Out of Earmarked/Endowment funds
(b) Own funds (Oth. Investment)	(b) Out of Own Funds (Investments Others)
IV. Interest Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
(a) On Bank Deposits	(a) Purchase of Fixed Assets
(b) Loans, Advances etc.	(b) Expenditure on Capital Work-in-Progress
V. Other Income (Specify)	V. Refund of surplus money/Loans		
			(a) To the Government of India
			(b) To the State Government
			(c) To other providers of funds
VI. Amount Borrowed	VI. Finance Charges (Interest)
VII. Any other receipts (give details)			VII. Other Payments (Specify)
			VIII. Closing Balance		
			(a) Cash in hand
			(b) Bank Balance
			(i) In current accounts
			(ii) In deposit accounts
			(iii) Saving accounts
TOTAL	TOTAL

Annexure-II

Revised Form-II

Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh
Income and Expenditure Accounts for the year ended _____.

(Amount-Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/Services	12
Grants Subsidies	13
Fees/Subscriptions	14
Income from investments (Income on Invest, from earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15
Income from Royalty, Publication etc.	16
Interest earned	17
Other Income	18
Income/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19
TOTAL (A)	
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20
Other Administrative Expenses	21
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22
Interest	23
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)			
TOTAL (B)	
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)			
Transfer to Special Reserve (Specify each)	
Transfer to/from General Reserve	
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND	
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Annexure-III

Revised Form-III

Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh
Balance Sheet as on _____

(Amount-Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND	1
RESERVES AND SURPLUS	2
earmarked/Endowment Funds	3
Secured Loans and Borrowings	4

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7
TOTAL			
ASSETS			
FIXED ASSETS	8
INVESTMENTS—FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9
INVESTMENTS—OTHERS	10
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	11
MISCELLANEOUS EXPENDITURE	
(to the extent not written off or adjusted)			
TOTAL	
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Foot-note : Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 571 dated 18-4-1967 and amended *vide* nos.

- GOI Notification No. E1.54/69 ME-PGI dt. 24-2-70
- GOI Notification No. 1.56/69 ME-(PG) dt. 26-3-70
- GOI Notification dt. 11-3-74
- PGI Notification No. F.3/NF 8(i)-76 dated 18-5-76
- GSR Notification No. EI(1)-PGI-76 dated 14-9-76
- GSR Notification No. E3/NF/78 dated 18-5-78 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17011/1/77-ME(PG) dated 9-5-78
- PGI Notification No. dt. 15-6-84 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17011/1/82-ME(PG) dated 23-3-1984.
- PGI Notification No. E3/NF/7(II), 80 dt. 15-6-84.
- PGI Notification No. E3/NF/84-6804 dt. 15-6-84.
- PGI Notification No. E3/NF/84/74438 dt. 26-12-84 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17011/3/84-ME(PG) dated 17-12-1984.
- PGI Notification No. 26-12-84 with the approval of GOI.
- GOI MOHFW Notification No. V.17011/4/85-ME (PG) dt. 13-9-85.
- PGI Notification No. E3/NF/85/61505 dt. 17-10-85 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. 17011/4/85-ME(PG) dated 17-10-1985.
- PGI Notification No. E3/NF/7(ii) /88 dated 12-9-1989 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V. 17011/2/88-ME(PG) dated 9/16-8-1989.
- PGI Notification No. 31/2-Trg.-68/4476-4527 dt. 23-1-96.
- PGI Notification No. E3/FCI(10)/1101 dt. 5-5-97.
- Notification No. GSR 715(E)-PGI-MA-98/31599 dt. 30-11-98 with Central Government approval dt. 30-11-98.
- Notification No. G.S.R. 152(E) PGI-MA-99/4795 dt. 24-2-1999 with the approval of GOI *vide* MHFW letter dated 23-2-1999.

19. PGI Notification No. E3/NF/2001/PGI/722 dated 22-3-2001 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V-17020/24/95-ME (PG)/ME Desk-II dated 12-3-2001.
20. PGI Notification No. E2/NF/2001/PGI/4990 dated 30-3-2001 with the approval of GOI *vide* MHFW letter No. V.17020/5/2000-ME (PG) Dated 12-3-2001.
21. PGI Notification No. E3/PGI/2002/2748 dated 10-6-2002 with the approval of GOI MOHFW, letter No. V-17020/21/2000-ME(PG) (part II), dated 15-5-2002.
22. PGI Notification No. E3/PGI/2002/4056 dated 30-07-2002 with the approval of GOI MOHFW, letter No. V-17020/48/2000-ME Desk-II, dated 08-07-2002.
23. PGI Notification No. E3/PGI/2005/7587 dated Chd. 21 Nov., 2005 with the approval of GOI MOH&FW, letter No. V. 17020/84/2005-ME-II, dated 21-11-2005.

4049 GI/07-3